



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012025-260174
CG-DL-E-13012025-260174

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2025/पौष 23, 1946

No. 198]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2025/PAUSHA 23, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2025

सं. 50/2024-25

विषय: वित्त अधिनियम 2024 दिनांक 16.08.2024 के समन्वय में आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-II (निर्यात नीति) की अधिसूचना के संबंध में।

का.आ. 200(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा वित्त अधिनियम, 2024 के समन्वय में आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-II (निर्यात नीति) को निम्नानुसार अधिसूचित करती है:

- अद्यतित 'आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-II (निर्यात नीति)' में पूरी की जाने वाली विशिष्ट नीतिगत शर्तों (यदि कोई) के साथ वर्तमान निर्यात नीति के सभी आईटीसी (एचएस) कोड निहित हैं, जो डीजीएफटी की वेबसाइट ([https:// dgft.gov.in](https://dgft.gov.in)) पर उपलब्ध होगी।
- 'निर्यात नीति हेतु सामान्य टिप्पणियां' को भी अनुसूची-II (निर्यात नीति) के समन्वय में अद्यतित किया गया है और यह डीजीएफटी की वेबसाइट (<https:// dgft.gov.in>) पर उपलब्ध होंगी।

4. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अधिसूचना का प्रभाव: वित्त अधिनियम 2024 दिनांक 16.08.2024 के समन्वय में आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-II (निर्यात नीति) को अधिसूचित किया गया है। अद्यतित, निर्यात नीति हेतु सामान्य टिप्पणियों को भी अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/191/121/एम 23/ईसी/ई-35174]

संतोष कुमार सारंगी महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2025

No. 50/2024-25

Subject: Notification of Schedule-II (Export Policy) of ITC(HS) 2022, in sync with Finance Act 2024 dated 16.08.2024 -reg.

S.O. 200(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies Schedule-II (Export Policy) of ITC(HS) 2022 in sync with the Finance Act 2024 as follows:

2. The updated 'Schedule-II (Export Policy) of ITC(HS) 2022' contains the current export policy of all ITC(HS) Codes along with specific policy conditions (if any) to be fulfilled, shall be available on the DGFT website ([https:// dgft.gov.in](https://dgft.gov.in))
3. The 'General Notes to Export Policy' has also been updated in sync with the Schedule-II (Export Policy) and shall be available on the DGFT website (<https:// dgft.gov.in>).
4. This shall come into force with immediate effect.

Effect of the Notification: Schedule-II (Export Policy) of ITC(HS), 2022, in sync with Finance Act 2024 dated 16.08.2024 has been notified. Updated General Notes to Export Policy are also notified.

[F. No. 01/91/191/121/AM23/EC/E-35174]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- Officio Addl. Secy.